

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 मार्च 2025 — फाल्गुन 29, शक 1946

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 (फाल्गुन 29, 1946)

क्रमांक—4809/वि.स./विधान/2025.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) जो गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता. /—
(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 12 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को अग्रतर संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

धारा 50-ख
का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 50-ख की उप-धारा (2) में शब्द "प्रमुख सचिव" के स्थान पर, शब्द "सचिव" प्रतिस्थापित किया जाये।

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की अपर्याप्त संख्या के कारण राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त का पद 11 अक्टूबर, 2024 से रिक्त है, जिससे सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन प्रभावित हो रहा है।

अतएव, राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन 1961) की धारा 50-ख की उप-धारा (2) में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर,
दिनांक 17 मार्च, 2025

केदार कश्यप
सहकारिता मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 50—ख(2) का सुसंगत उद्धरण.

* * * * *

धारा 50—ख. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग.—

उप—धारा (2) राज्य सरकार, इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सहकारी सोसाइटियों के सभी प्रकार के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए, प्रमुख सचिव से अनिम्न श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी, जो छत्तीसगढ़ शासन में सेवारत रहा हो, को राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी

* * * * *

दिनेश शर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा